

SKPM/SEC.DEPT/2022-23
MAY 31,2022

To,
BSE Limited
Corporate Relationship Deptt.
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building, P. J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code:500388

Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation 2015

Subject: **Newspaper Advertisement of Financial Results under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed below, the newspaper clippings of Audited Financial Results for the quarter and Year ending March 31st, 2022, published in:

1. Business Standard- English language national daily newspaper.
2. Business Standard - Hindi Edition.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.




Ritika Priyam
Company Secretary & Compliance Officer
Mem No: A53502

Encl: As above

REGD. OFFICE : 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002
Ph. : 91-11-46263200, 23261728, 23267253 E-mail : info@skpmil.com
WORKS : Plot No. SPL-A, RIICO Industrial Area, Vill. & P.O. : Keshwana, Tehsil Kotputli,
Distt. : Jaipur-303108 (Rajasthan) Ph. : 7229860222, 7229860333 E-mail : keshwana@skpmil.com
CIN No. : L21012DL1972PLC279773 www.facebook.com/shreekrishnapaper

Street welcomes Jubilant's call to put Khetarpal at helm

Stock surges nearly 10% even as company posts 8.2% decline in profit in Q4FY22

SHARLEEN D'SOUZA
Mumbai, 30 May

Jubilant FoodWorks has appointed Sameer Khetarpal as CEO & managing director effective from September 5, the company said in a stock exchange filing on Monday. Khetarpal would take over from Partik Pota, current CEO and whole-time director.

Following the news, the company's stock surged and closed 9.64 per cent up at ₹566.80 on the BSE, despite reporting an 8.2 per cent decline in net profit in Q4FY22 to ₹96.8 crore because of higher expenses. This was below Street estimates which pegged net profit at ₹111.8 crore, even as the revenue at ₹1,176 crore was slightly better than expected. Bloomberg estimates stood at ₹133.6 crore.

Shares of Jubilant FoodWorks had plunged over 12 per cent on March 14 this year following the news that Pota had decided to resign. The move by Pota came as a surprise as the Board had approved his re-appointment in June 2021 as the CEO for three years ending March 2025. Since mid of March, the stock had largely moved in the ₹500-600 range before falling to a 52-week low of ₹451.60 on May 12, 2022.

Khetarpal would join Jubilant FoodWorks after a six-and-a-half year stint at Amazon, the company stated. At Amazon, he launched and scaled several businesses like Amazon Fresh, Amazon Food, and Amazon Pharmacy. "He has built these businesses with world-class supply chain infrastructure, deeply embedded with technology and several inorganic investments and partnerships," the company said in its filing.

In his 25-year career, he has served in several leadership roles. Before Amazon, Khetarpal was a partner at McKinsey and Company, where he served several clients on topics related to business building and transformation,




Sameer Khetarpal (pictured) would join Jubilant FoodWorks after a six-and-a-half year stint at Amazon

Q4 EARNINGS AT A GLANCE (Consolidated figures)

Quarter ended	Q4FY21 (₹ cr)	Q3FY22 (₹ cr)	Q4FY22 (₹ cr)	Change % QoQ	YoY
Net Sales	1037.9	1210.8	1176.0	-2.9	13.3
Other income	12.9	11.1	12.6	13.8	-2.2
PBITD	263.5	327.6	285.8	-12.8	8.5
PBT	138.1	179.1	133.7	-25.4	-3.2
Net profit	105.4	133.9	96.8	-27.7	-8.2

Compiled by BS Research Bureau

Source: Capitaline



and was instrumental in building data-driven service lines used by several Fortune 500 companies, Jubilant FoodWorks said. Khetarpal has previously worked with GE Capital and Hindustan Unilever, too.

Shyam S Bhartia, chairman, and Hari S Bhartia, co-chairman, Jubilant FoodWorks, said in the filing: "We are now a multi-country, multi-brand company with deep investments in technology. We are looking to further our investments across our portfolio of brands to become a food tech powerhouse."

"Sameer, with his strengths in building digital-first businesses in related spaces will provide the necessary leadership to our business. He is a strong, dynamic and values-driven leader with an impressive track record of delivering consistent high-quality performance in tough consumer businesses. The board warmly welcomes Sameer to the role and wishes him every success," they said.

Khetarpal said as India's largest foodservice company, Jubilant FoodWorks, is uniquely poised to

scale non-linearly across multiple businesses and geographies.

The announcement came on a day when the company announced its March quarter results, in which it reported an increase in revenue, even as net profit declined. The revenue during the quarter was up 13.3 per cent YoY to ₹1,176 crore a tad higher than Bloomberg's estimates of ₹1133.6 crore.

In its release, the company said that in its pizza chain, Domino's, the increase in revenue was driven by robust growth in the delivery channel. It said the dine-in and takeaway channels combined registered moderate growth. Its PBITD stood at ₹ 285.8 crore, up 8.5 per cent compared to last year.

The company opened 80 new Domino's stores taking the network strength for Domino's in India to 1,567 stores. It also entered 17 new cities during the quarter to expand its reach to 337 cities across India. Jubilant FoodWorks also opened 4 new restaurants for Popeyes and one restaurant each for Dunkin', Hong's Kitchen and Ekdam! during the quarter.

During the quarter, in Sri

Lanka, Jubilant FoodWorks registered system sales growth of 80.6 per cent and opened 3 new stores taking the network strength to 35 stores.

In Bangladesh, system sales grew by 44.5 per cent and opened an outlet taking the store count in Bangladesh to nine. The company has also completed a 100 per cent acquisition of its subsidiary with an intention to further strengthen its presence and scale of operations in the fast-growing and critical market of Bangladesh.

Shyam S Bhartia and Hari S Bhartia in the statement stated: "This has been a momentous year for the company on two accounts. A series of timely, strategic investments in strengthening the digital ecosystem for delivery and setting up an integrated supply chain network has helped the company register record revenue, profitability and store growth numbers even in the face of adversity and inflationary challenges. This in turn has enabled us to foray into new categories and make strategic investments which will continue to create significant future value for all stakeholders."

Use Section 89 (1) to reduce tax burden arising from arrears

To avail of this relief, you must file Form 10E before submitting income-tax return

BINDISHA SARANG

Many employees faced salary cuts because of the disruption caused by Covid-19. But when the outlook improved, salaries of many such employees were reinstated, and some even received bonuses. Many are now wondering if they will have to pay higher taxes this year.

Suresh Surana, founder, RSM India, says, "Salary is taxed in the hands of an individual on due or receipt basis, whichever is earlier. However, if an individual receives a certain sum of money in the current year that pertains to a previous year, he may have to pay higher taxes on such receipts as a result of the increase in tax rates."

To avoid over-taxation due to salary received as advance or as arrears, the Income Tax (I-T) Act has a provision under Section 89 (1) for claiming relief.

Taxpayers can claim relief for an amount equal to the additional tax liability, arising due to deferral in receipt of income.

As for bonus, Naveen Wadhwa, deputy general manager, Taxmann, says, "Bonus paid or payable by the employer is taxable in the year of receipt if it has not been taxed earlier on a due basis. If the bonus is received as arrears, the assessee can claim relief under Section 89."

Income eligible for relief

Relief can be claimed on several types of income received as arrears.

Maneet Pal Singh, partner, IP Pasricha & Co, says, "Section 89(1) provides relief in cases where salary is received as arrears or as advance, receipt of gratuity for past service, compensation on termina-

DETERMINE TAX RELIEF UNDER SECTION 89(1)

Steps	Particulars	Illustrative tax calculation (₹)
Step 1	Determine tax payable on total income (including arrears) for year in which arrears received	616,200
Step 2	Determine tax payable on total income (excluding arrears) for year in which arrears received	460,200
Step 3	Calculate tax payable for current year arising because of arrears (Step 1 minus Step 2)	156,000
Step 4	Determine tax payable on total income (including arrears) for year to which arrears belong	177,675
Step 5	Determine tax payable on total income (excluding arrears) for year to which arrears belong	54,075
Step 6	Calculate tax payable for year to which arrears are related which would arise only because of arrears, i.e., Step 4 minus Step 5	123,600
Step 7	Excess tax payable in the current year (as computed in Step 3) over tax computed for the year to which arrears belong (as computed in Step 6) can be claimed as relief under Section 89	32,400

Suppose X's total income in 2021-22 is ₹21,00,000. Total income in 2017-18 is ₹7,00,000. Amount of arrears pertaining to 2017-18 received in 2021-22 is ₹5,00,000. Source: RSM India

tion of employment, and commuted pension."

At the time of retirement, if an employee opts for commutation of pension, a lump sum is paid to him (in lieu of periodic payments of pension). The pension then begins on the remaining amount. Note, even family pension received as arrears qualifies for Section 89(1) relief. This holds true for premature withdrawal from a provident fund account, too.

How to claim relief

Rule 21A of the I-T rules prescribes the method for computing relief (see table). Deepak Jain, chief executive,

TaxManager.in, says, "An individual can claim relief under Section 89(1) only if she submits Form 10E." This form can be filed online on the I-T portal.

Things to keep in mind

When it comes to filing Form 10E, timing is important. Wadhwa says, "It has to be filed online at the e-filing portal before filing the Income-Tax Return (ITR). If it is filed after filing the ITR, the I-T department may not allow Section

89 relief claimed in the ITR."

Jain adds, "Those who have not filed Form 10E could receive a notice from the I-T department for non-compliance. Their return will not be processed till the form is submitted."

Intimation under Section 143(1) could also be sent for making the proposed adjustments. Surana says, "Individuals need not worry if they have failed to file this form, but they should file it duly when they receive a notice."

The employee should claim relief in the ITR for the year in which the lump sum is received, except in the case of advance salary, where relief is available in the year in which the salary will be due.

Singh says, "After filing Form 10E, share a copy with the employer for the purpose of TDS (tax deduction at source) calculation."

While claiming relief, select the assessment year properly to which the arrears belong. Disclose the previous year's income also properly.

Surana adds, "Maintain all the necessary proof to substantiate the relief claimed and thus avoid unnecessary litigation."

BPL BPL LIMITED						
Regd. Office: BPL Works, Palakkad 678 007, Kerala. CIN:L28997KL1963PLC002015 E-mail : investor@bpl.in, URL : bpllimited.com, Tel: No.+91 80 25589109						
Statement of Standalone / Consolidated * Audited Results for the Quarter and Year ended 31 st March, 2022 (Rs. In Lakhs)						
Refer Note Below:	Standalone			Consolidated		
	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended	Year Ended	
Particulars	31-03-2022 (Audited) *	31-12-2021 (Unaudited)	31-03-2021 (Audited)	31-03-2022 (Audited) *	31-03-2021 (Audited)	31-03-2022 (Audited) *
Total income from operations	1677.85	1341.94	1505.01	4919.18	4483.99	1677.85
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	564.52	56.34	149.28	764.85	(54.64)	564.52
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	564.52	56.34	149.28	764.85	(54.64)	564.52
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,446.59	56.34	(1,899.48)	1,646.92	(2,103.40)	1446.59
Equity Share Capital	4890.69	4888.58	4888.58	4890.69	4888.58	4890.69
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	9985.94	9985.94	12089.46	9985.94	12089.46	NA
Earnings Per Share (of Rs. 10 each) (for continuing and discontinued operations)-						
Basic	2.96	0.12	(3.89)	3.37	(4.30)	2.96
Diluted	2.96	0.12	(3.89)	3.37	(4.30)	2.96

* Bharat Energy Ventures Private Limited (BEVPL) and BPL Power Projects (AP) Private Limited (BPPL) became subsidiaries from 23rd March, 2022 and there were no revenue / expenses from these companies till 31st March, 2022. Therefore, standalone profitability is considered as consolidated profitability. This being the initial year of consolidation, no comparable previous period figures are available for the quarter and the year.

Note: The above is an extract of the detailed format of Audited Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Yearly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com, www.nseindia.com) and of the listed entity.

For BPL Limited
Sd/-
Ajit G Nambiar
Chairman & Managing Director

30th May, 2022
Bangalore

TENDER CARE

BALMER LAWRIE ANNOUNCES FY 2021-22 RESULTS

Balmer Lawrie & Co. Ltd., a Mini Ratna Category – IPSE with diversified business portfolios, has announced results for the quarter and year ended 31st March 2022. The results were approved by the Board in its Meeting held on 27th May 2022. The total income for the fourth quarter of the FY 2021-22 increased by 15% and stood at Rs 607.32 crores as compared to the same period last year. While the Profit Before Tax (PBT) for the quarter ended 31st March 2022 is Rs 84.31 crores, the net profit (PAT) for the quarter is Rs 57.68 crores. The net income of the Company for the year is Rs 2104.85 crores registering a growth of 32% on the levels achieved in 2020-21. The PBT for the year ended 31st March 2022 increased by 8.61% to Rs 170.14 crores, the PAT increased by 5.46% and stood at Rs 122.81 crores. The performance of the Travel and Vacations verticals continue to be affected by the COVID-19 pandemic in this financial year as well. The Board of Directors has recommended a dividend of 65% for the FY 2021-22 as against 60% dividend paid for the FY 2020-21.

UCO BANK ENTERS INTO AGREEMENT WITH PAISALO DIGITAL LIMITED FOR CO-LENDING ARRANGEMENT

UCO Bank, a public sector bank and Paisalo Digital Limited, a systemically important New Delhi based non-deposit taking NBFC, announced that they have signed co-lending agreement for Agriculture Business. This arrangement will provide access to borrowers for income generation under Agriculture allied segment. Co-lending is an emerging area in the Priority Sector financing and due focus is given by the Government of India to help Agriculture and other small borrowers, who are the backbone of the Indian Economy. UCO Bank is actively looking for Co-lending opportunities in Agriculture & in the process to sign-off few more such arrangements. Speaking on the occasion Soma Sankara Prasad, MD & CEO of UCO Bank said that co-lending arrangement is one of the new avenues of lending. The tie-up will give a boost to the agriculture advance of the Bank and it is a win-win situation for the bank as well as NBFC with benefit reaching to those at the bottom of the society. Executive Director Ishraq Ali Khan expressed that this is a great beginning for UCO Bank under agriculture segment through co lending arrangement.

GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED (GSFC) Q4 AND ANNUAL RESULTS FY22

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) announced its best ever turnover and profit figures for the year ended 31st March, 2022. The resounding results have come when the fertilizer and chemicals giant is in its Diamond Jubilee year. GSFC has achieved an exemplary sales turnover with 18% growth for the fourth quarter and 20% growth for the financial year ending on 31st March, 2022. Standalone net profit of GSFC in Q4 was Rs 292.26 crores as against Rs 132 crores during January-March 2020-21. Elaborating on the results, Mukesh Puri, IAS, Managing Director of the Company

NMDC DELIVERS BEST EVER ANNUAL FINANCIAL PERFORMANCE

NMDC produced 42.19 million tonnes and sold 40.56 million tonnes of iron ore during the financial year 2021-22. With this, the company registered the strongest ever growth in its history, of 24% over last fiscal's production of 34.15 million tonnes and a 22% growth over the 33.25 million tonnes sold in FY21. Commenting on the impressive performance, Sumit Deb, CMD, NMDC said, "This performance reflects the commitment of NMDC to make India truly Atma Nirbhar. We start this fiscal with a continued sense of focus and expect to complete important projects and deliver a stronger and sustained performance, owing to our focus on automation and digital initiatives that will catalyse our operations".

BoM TOPS PSU LEENDERS CHART IN LOAN GROWTH IN FY22

Bank of Maharashtra (BoM) has emerged as the top performer among public sector lenders in terms of loan and deposit growth in percentage terms during 2021-22. The Pune-headquartered lender recorded a 26 per cent increase in gross advances at Rs 1,35,240 crore at the end of March 2022. It was followed by State Bank of India and Union Bank of India with 10.27 per cent and 9.66 per cent growth, respectively. However, in absolute terms, aggregate loans of SBI were nearly 18 times higher at Rs 24,06,761 crore while Union Bank of India's five times higher at Rs 6,99,269 crore compared to that of BoM's at the end of fourth quarter. With regard to deposit growth, BoM witnessed a 16.26 per cent growth and mobilised Rs 2,02,294 crore at the end of March 2022. Union Bank of India was second with an 11.99 per cent growth in deposits (Rs 10,32,102 crore) while Indian Bank recorded a 10 per cent increase at Rs 5,84,661 crore, according to the published data. Total business growth of BoM was also the highest at 20 per cent at Rs 3,37,534 crore followed by Union Bank of India at 11.04 per cent at Rs 17,31,371 crore at the end of FY'22. In terms of RAM (retail, agriculture and MSME) segment, BoM registered the highest growth rate of 18.65 per cent at Rs 80,669 crore. The bank's gross NPAs nearly halved to 3.94 per cent from 7.23 per cent in March 2021, while net NPAs more than halved to 0.97 per cent from 2.48 per cent in March 2021. For the full year to March, the lender saw its net profit rising two-fold to Rs 1,152 crore as against Rs 550 crore in FY21. BoM is eyeing a 25-30 per cent growth in its net profit in the current financial year, aided by a healthy growth in net interest income (NII) and fall in provisions for bad assets.

Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited						
Regd. Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi - 110 002 CIN: L21012DL1972PLC279773 Website: www.skpmil.com E-mail: info@skpmil.com Tel: 91-11-46263200 (₹ in Lakhs)						
Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended March 31, 2022						
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2022 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	Quarter ended 31.03.2021 (Audited)	Year ended 31.03.2021 (Audited)	
1	Total Income from Operations	3,429.25	10,439.59	2,356.97	6,983.88	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	43.99	(171.36)	5.26	(413.50)	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	43.99	(171.36)	5.26	(413.50)	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	31.63	(131.46)	(3.29)	(327.44)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	32.35	(135.53)	1.94	(295.29)	
6	Equity Share Capital (Face value of ₹ 10/- each)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17	
7	Other equity (Reserves excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		622.33 (As at 31.03.2022)		757.86 (As at 31.03.2021)	
8	Earnings per equity share (face value of ₹ 10/- each) (not annualised)					
	(a) Basic (in ₹)	0.24	(0.97)	(0.02)	(2.42)	
	(b) Diluted (in ₹)	0.24	(0.97)	(0.02)	(2.42)	

Notes:

- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2022 is available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.skpmil.com.

For and on behalf of the Board of Directors of Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited
Sd/-
Narendra Kumar Pasari
Managing Director
DIN - 00101426

Place : New Delhi
Date : May 30, 2022

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: 4830/24, प्रह्लाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002					
सीआईएन: L21012DL1972PLC279773					
वेबसाइट: www.skpmil.com, ई-मेल: info@skpmil.com फोन नं.: 91-11-46263200					
(₹ लाख में)					
31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारा					
क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	3,429.25	10,439.59	2,356.97	6,983.88
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	43.99	(171.36)	5.26	(413.50)
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	43.99	(171.36)	5.26	(413.50)
4	कर पश्चात् अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	31.63	(131.46)	(3.29)	(327.44)
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात्) शामिल]	32.35	(135.53)	1.94	(295.29)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक)	1,352.17	1,352.17	1,352.17	1,352.17
7	आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलना-पत्र में दर्शाए अनुसार	622.33		757.86	
		(As at 31.03.2022)		(As at 31.03.2021)	
8	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.24	(0.97)	(0.02)	(2.42)
	(क) मूल (₹ में)	0.24	(0.97)	(0.02)	(2.42)
	(ख) तरल (₹ में)	0.24	(0.97)	(0.02)	(2.42)
नोट:					
1. ये परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एसएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।					
2. ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 यथासंशोधित के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गये 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सारा है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।					
निदेशक मंडल के लिए एवं उन्हीं के लिए श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता/-					
नरेन्द्र कुमार पसारी प्रबंध निदेशक					
स्थान : नई दिल्ली					
दिनांक : 30 मई, 2022					
सीआईएन - 00101426					

YORK EXPORTS LIMITED										
REGD. OFFICE: D-6, Diwan Shree Apartments, 30, Ferozeshah Road, NEW DELHI										
Website : www.yorkexports.in CIN : L74899DL1983PLC015416										
Extract of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2022										
(₹ in Lakh)										
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated				
		Quarter ended		Financial Year ended		Quarter ended		Financial Year ended		
		31.03.2022 (audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (audited)	31.03.2022 (audited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (audited)	31.03.2022 (audited)	31.03.2021 (audited)	
1	Total Income from Operations	82.89	633.14	34.38	3080.23	2050.03	82.89	633.14	34.38	3080.23
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19	11.22	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19
3	Net Profit/(Loss) for the period (before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19	11.22	(20.63)	32.90	(26.13)	177.56
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	(26.87)	17.61	(35.12)	74.19	8.22	(19.63)	24.90	(24.13)	160.56
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(10.34)	17.61	(33.18)	90.72	10.16	(3.10)	24.90	(22.19)	177.09
6	Equity Share Capital	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per equity Share (Basic & Diluted) (Face Value of Rs. 10/- per share)	(0.31)	0.53	(0.99)	2.70	0.30	(0.09)	0.74	(0.66)	5.27
1 The above results are an extract of the detailed format of quarterly / Yearly Financial Results filed with the BSE Ltd. Under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at www.yorkexports.in .										
2 The Consolidated Financial Results have been prepared in accordance with principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as specified by ICAI and section 133 of the Companies Act, 2013.										
3 The financial results for the quarter and year ended March 31, 2022 are in compliance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified by the MCA.										
For and on behalf of the Board of Directors										
For York Exports Ltd										
Sd/-										
(Aayush Dhawan)										
Whole time Director										
DIN: 00277485										
Place: Ludhiana										
Dated: 30.05.2022										

सेक्टर बैंक होम फायनेंस लिमिटेड		शाखा कार्यालय: 3ई/10, मेजेनाइन तल, नव दुर्गा भवन, इंडेगलान एक्सप्रेसवे, नई दिल्ली-110035		अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस, जब उसे वापस किया जाता है स्वीकार करने या स्वीकार करने से इनकार किया जाता है, को समाप्त करने पर प्रकाशित किया जाता है	
Cent Bank Home Finance Limited		फोन: 011-35582932		सीआईएन नं. U65922MP1991PLC006427	
Branch: Delhi		Corporate Office: Mumbai			
Subsidiary of Central Bank of India					

यह दस्तावेज़ नोटिस देता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलभूत और आधार के पुनर्निर्माण में चूक कर चुके हैं और ऋणों को निर-निर्धारित आदिता (पुनर्प्राप्त) के रूप में वापस किया गया है। वित्तीय आदिता का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत उन्हें उनके अंतिम ज्ञात पर पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्हें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, और इस तरह उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

क्र. सं.	उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर का नाम व पता	संपत्तियों का विवरण	नोटिस की तिथि एवं/या की तिथि	व्यवस्था राशि
1.	श्री कृष्णा सिंह, पुत्र श्री रूप नारायण, श्रीमती यशोदा पत्नी कृष्णा सिंह, निवासी: ए-25, ब्लॉक-ए, सिवाजी एंक्लेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली-110027 लोन खाता नं. 00602070000751	प्लॉट नं. 9 व 10, खसरा नं. 8/14, गाँव मटियाल के क्षेत्र में बैंक पार्क से जाने वाली कालोनी में स्थित, नई दिल्ली। चार्जदारी: पूर्व-प्लॉट नं. 8, पश्चिम-अन्य का प्लॉट, उत्तर-अन्य का प्लॉट, दक्षिण-रॉड	21.01.2022 07.12.2019	4.71,471/-
2.	श्रीमती पूनम अश्वती पुत्री श्री सुरेश चंद्रा व श्री चंद्रा प्रकाश पुत्र श्री सुरेश चंद्रा, निवासी: मकान नं. 220, रोड गार्डन, मोदीन कानवाली, इंदिरापुरम, आग्रवाली स्कूल के पास, गाँवबाबाद, उत्तर प्रदेश। लोन खाता नं. 00603010000031	खसरा नं. 620एम, गाँव मोहिजदीनपुर में स्थित, कानवाली, परगना लोनी, तहसील दारौ, जिला गौतम बुद्ध नगर, गाँवबाबाद, उत्तर प्रदेश। चार्जदारी: पूर्व-प्लॉट नं. 8, पश्चिम-अन्य का प्लॉट, उत्तर-अन्य का प्लॉट, दक्षिण-अन्य का प्लॉट	19.01.2022 11.01.2022	6.12,027/-
3.	श्री सोनू पुत्र श्री मदन लाल, श्रीमती विष्ठी पत्नी श्री सोनू, निवासी: मकान नं. 127, सदीक नगर, सिहाली, गाँवबाबाद, उत्तर प्रदेश। लोन खाता नं. 00603010000047	मकान नं. 215, खसरा नं. 206, गाँव सदीक नगर, परगना लोनी, तहसील व जिला गाँवबाबाद, उत्तर प्रदेश। चार्जदारी: पूर्व-मूलचंद्र का खेत, पश्चिम-16 फुट रस्ता, उत्तर-आश्रयता का प्लॉट, दक्षिण-सुरिता का प्लॉट	10.04.2022 05.05.2022	6.12,027/-

नोटिस को प्रतिभूतिकरण नार्मल के लिए कर्म उद्धार जा रहे हैं। उपरोक्त उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता और गारंटर (जहाँ लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर व्यय गति का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा नहीं करने पर इस नोटिस की तिथि के 60 दिनों को समाप्त पर वित्तीय आदिता का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत आम की कार्यवाई की जाएगी।
स्थान: नई दिल्ली, दिनांक: 30.05.2022

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड					
सीआईएन: एल74899DL1984पीएलसी016268					
पंजी. कार्यालय: 98ए, द्वितीय तल, नन्दरवदर एस्टेट, सेक्टर नगर, नई दिल्ली-110065					
सीआईएन: एल28113डीएल2010पीएलसी210819					
फोन: 011-41064256, फैक्स: 011-26322664, ई-मेल: cs@oswaloverseaslltd.com, वेबसाइट: www.oswaloverseaslltd.com					
31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण					
(₹ लाख में)					
क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त 31-03-2022	तिमाही समाप्त 31-03-2021	वर्ष समाप्त 31-03-2022	वर्ष समाप्त 31-03-2021
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	5755.05	5814.44	16763.11	18060.43
2	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात् (असाधारण मदों से पहले)	928.45	1142.76	10.17	152.31
3	सामान्य गतिविधियों से शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात् (असाधारण मदों के बाद)	926.88	1142.50	8.60	152.05
4	अन्य सामग्री आय	5.80	-1.42	8.24	1.48
5	शुद्ध लाभ/(हानि)	932.68	1141.07	16.84	153.52
6	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11
7	₹. 5/- प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	12922100	12922100	12922100	12922100
8	संशय (पुनर्मूल्यांकन संशय छोड़कर, जैसा कि तुलनापत्र में दर्शाए है)	-	-	-1591.23	-1604.81
9	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (अंकित मूल्य ₹. 5/- प्रत्येक)	7.22	8.83	0.13	1.19
	तनुकृत:	7.22	8.83	0.13	1.19
नोट:					
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारोक्त रूप है। तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप ओएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.oswaloverseaslltd.com) पर उपलब्ध है।					
2. उपरोक्त परिणामों का पुनर्निर्माण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30 मई, 2022 को सम्पन्न उनकी बैठक में किया गया है।					
3. चीनी उद्योग एक ऋतु आधारित उद्योग है, जहाँ पेरार्ड का कार्य सामान्यतः नवम्बर से अप्रैल के बीच की अवधि में किया जाता है, जबकि विभिन्न वर्ष भर होती है। कंपनी का कार्यप्रदर्शन हर तिमाही में भिन्न होता है।					
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 155डीए के प्राधान्यों के अनुसार, जैसाकि करधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 में घोषित तथा 11 दिसम्बर, 2019 को अधिनियमित करधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019 में उद्घोषित किया गया है, 01 अप्रैल, 2019 की प्रभावी तिथि से, परंतु (स्वदेशी) कम्पनियों के पास उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अनुसार पूर्ववर्ती कतिपय छूटों/कटौतियों ("नई कर पद्धति") द्वारा रिवायती दर पर आयकर भुगतान का विकल्प मौजूद है। नई कर पद्धति के आकलन के आधार पर, कम्पनी ने मौजूदा कर ढांचे को कतिपय कटौतियाँ उपलब्ध करने और संशोधित न्यूनतम वैकल्पिक कर (मिड) क्रेडिट समाप्त होने तक जारी रखने और उसके बाद उपरोक्तानुसार नई कर पद्धति का विकल्प चुनने का निर्णय किया है।					
व्यक्त ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड हस्ता/-					
परमजीत सिंह (प्रबंध निदेशक)					
स्थान: नई दिल्ली					
दिनांक: 30-05-2022					
सीआईएन - 00313352					

SPL INDUSTRIES LTD.					
Regd. Office: 202, 2nd Floor, Vikramaditya Tower, Alaknanda Market, Kalkaji, New Delhi-110019					
Email: cs@spllimited.com CIN: L74899DL1991PLC062744					
The Manager Listing Department, NSE/BSE					
EXTRACT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/YEAR ENDED MARCH 31, 2022					
(Figures in Rs. Lakhs)					
PARTICULARS	Quarter Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Quarter Ended 31.03.2021	Year Ended 31.03.2022	Year Ended 31.03.2021
	Audited	Un-Audited	Audited	Audited	Audited
Total Income from Operations (Net)	8,049.80	5,630.87	2,798.60	20,791.26	11,575.17
Net Profit/(Loss) from ordinary activities (before extraordinary items)	1,005.67	783.13	331.26	2,865.52	1,794.36
Net Profit/(Loss) from ordinary activities (after extraordinary items)	1,005.67	783.13	331.26	2,865.52	1,794.36
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after extraordinary items)	701.77	575.77	267.90	2,108.42	1,355.19
Total Comprehensive Income (Comprising Profit/Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax	701.77	575.77	268.46	2,100.14	1,355.76
Equity Share Capital	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the Previous Year)					
Earning Per Share (before extraordinary items and tax) (of Rs.10/- each)					
Basic:	3.47	2.70	1.14	9.88	6.19
Diluted:	3.47	2.70	1.14	9.88	6.19
Earning Per Share (after extraordinary items & tax) (of Rs.10/- each)					
Basic:	2.42	1.99	0.92	7.27	4.67
Diluted:	2.42	1.99	0.92	7.27	4.67
NOTES:					
1 The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30 th May, 2022. The Statutory Auditors have reviewed the results for the Quarter ended 31 st March, 2022.					
2 This Statement has been prepared in accordance with the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND AS), Prescribed under section 133 of the companies act 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The company adopted Ind-AS from 01 st April 2017.					
3 The Meeting of Board of Directors was held on 30 th May, 2022 at the schedule time and the above results were approved.					
4 In Relation to Regulation 23 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) and Circular- SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2022/40 dated March 30 2022, the Audit Committee meeting held on May 30, 2022 has approved the total Related Party Transactions of INR. 18,978.53 (in lakhs), and have decided to approve the existing material Related Party Contracts entered in the upcoming AGM of the company.					
5 As per IND AS 108 "Operating Segment", the company has disclosed the segment information only as a part of the standalone financial results.					
6 Effective April 1, 2018, the Company adopted Ind-AS 115 - Revenue from Contracts with Customers. The effect on adoption of Ind-AS 115 is insignificant on the financial statements.					
7 Effective April 1, 2019, the Company adopted Ind-AS 116 - Leases. The effect on adoption of Ind-AS 116 is insignificant on the financial statements.					
8 No complaints were received during the Quarter ended 31 st March, 2022.					
9 Previous Year / Period figures have been recasted/regrouped/reclassified wherever considered necessary.					
Sd/-					
Mukesh Kumar Aggarwal (Managing Director)					
Place : Faridabad					
Date : 30.05.2022					

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड		शिवम ऑटोटेक लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय: 10, पहली मंजिल, टॉवर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोलक कोर्स एक्सप्रेसवे रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122102		सीआईएन: L34300HR2005PLC081531				
टेलीफोन: 0124-4698700; फैक्स: 0124-4698798		ई-मेल: info@shivamautotech.com ; वेबसाइट: www.shivamautotech.com				
ई-मेल: info@shivamautotech.com ; वेबसाइट: www.shivamautotech.com						
31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष हेतु अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण						
(रुपये लाखों में)						
क्र. सं.	विवरण	को समाप्त तिमाही		को समाप्त वर्ष		
		31 मार्च 22	31 दिसम्बर 21	31 मार्च 21	31 मार्च 22	31 मार्च 21
		(अंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	11,367.02	11,339.05	16,309.59	47,338.14	49,092.82
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पूर्व)	181.98	423.41	611.20	(1,606.03)	(2,452.60)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	181.98	423.41	611.20	(1,606.03)	(2,452.60)
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (विशिष्ट और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	181.98	423.41	(508.96)	(1,606.03)	(2,252.56)
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]	296.90	438.00	(443.81)	(1,447.34)	(2,214.59)
6.	समता अंश पूंजी	2,444.44	2,000.00	2,000.00	2,444.44	2,000.00
7.	अन्य इक्विटी	-	-	-	-	9,302.14
8.	प्रति शेयर आय (₹ 2/- प्रत्येक) जारी एवं बंद प्रचालनों हेतु					
	- मूल	0.17	0.41	(0.49)	(1.46)	(2.17)
	- तरल	0.17	0.41	(0.49)	(1.46)	(2.17)
टिप्पणी:						
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दाखिल किए गए तिमाही एवं अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्घरण है। तिमाही एवं वार्षिक अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www						